



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2006 (श्रावण 28, 1928)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2006 (SRAVANA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 8 अगस्त 2006

सं. ए-39011/2/2006-प्रशासन--श्री जे. राधाकृष्णन, 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, के पद से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

आर. एस. राणा, उप-सचिव

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 अगस्त 2006

सं. ए-22017/6/2004-पीएमए--गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री चो. वी. बी. सेट्टी को दिनांक 24 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से श्री एम. के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ से कार्यभारमुक्त हो गये हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

सं. ए-38013/1/2006-पीएमए--इस कार्यालय में अनुभाग अधिकारी श्री दामोदर दयाल अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 4 अगस्त 2006

सं. ए-38012/1/2004-पीएमए--इस कार्यालय में निदेशक श्री वेद प्रकाश शर्मा अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2006

सं. आरएस./6(ii)/2006/56-कार्मिक--श्री के. मिश्रा को भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड में उप-प्रबंधक के पद से कार्य मुक्त होने पर राज्य

सभा के माननीय उप-सभापति (श्री के. रहमान खान) के वैयक्तिक स्टाफ में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 12 मई, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री के. मिश्रा की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान माननीय उप-सभापति के विवेकाधीन है और वह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

वंजुला जी. राजन, अवर सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. आरएस./41(i)/2006/57-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने संपादन एवं अनुवाद सेवा के निम्नलिखित व्यक्ति के संबंध में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (ए.सी.पी.) योजना के अनुसार 3 अगस्त, 2006 से वित्तीय उन्नयन संबंधी स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रम सं., नाम और पदनाम, वर्तमान वेतनमान और संशोधित वेतनमान

1. श्री भालेन्दु भूषण द्विवेदी, सहायक संपादक, 8,000-275-13,500/- रुपये--10,000-325-15,200/- रुपये

2. वित्तीय उन्नयन की अन्य शर्तें, भर्ती और सेवा-शर्तें आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 के अनुसार होंगी।

वंजुला जी. राजन, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अगस्त 2006

सं. एफ15/28/2004/जीएन-5695/एएन-1--श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति (श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, के निजी स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 10 जुलाई, 2006 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवा अवधि के आधार पर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

जे. पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जुलाई 2006

सं. ए-19013/2/2002-प्रशासन--राष्ट्रपति, डॉ. उदय कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप-निदेशक के पद पर वेतनमान 10,000-325-15,200/- रुपये में दिनांक 10 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

मुकुल चतुर्वेदी, निदेशक

सं. ए-19013/1/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री मुकेश मित्तल, भारतीय राजस्व सेवा, (इन्कम टैक्स-87) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में वेतनमान 14,300-400-18,300/- रुपये में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के पद पर दिनांक 17 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

मुकुल चतुर्वेदी, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2006

सं. ए-12025/25/2003-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 14 जून, 2005 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, डॉ. सी. मुरलीकृष्णा कुमार, वैज्ञानिक 'एफ', सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की योजना आयोग में सलाहकार (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 07.06.2006 (पूर्वाह्न) से अगले छह माह तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रपति बढ़ाते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. एफ.6(1738)/98-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 30.06.2006 के आदेश सं. 13016/3/2006-आई.ई.एस. के अनुपालन में, आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक श्री एम. आर. आनन्द को आर्थिक कार्य विभाग में कार्यभार संभालने हेतु योजना आयोग से दिनांक 03.08.2006 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए-12022/2/2006-प्रशा. IV--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/13/2005-ईओ (एमएम-II) दिनांक मई 16, 2006 के तहत वस्त्र मंत्रालय के केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के पद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु चयन हो जाने के परिणामस्वरूप तथा आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13019/2/2006-आई.ई.एस दिनांक 18.05.2006 के अनुसरण में, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर में निदेशक, श्री ओम प्रकाश को इन अनुदेशों के साथ दिनांक 20.07.2007 के अपराह्न से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) से कार्यभार मुक्त किया जाता है, कि वे अपने नये पदभार को तत्काल ग्रहण करें।

2. वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 2(63)-ई-III/60 दिनांक 07.09.1960 की शर्तों के अनुसार श्री ओम प्रकाश को प्राधिकृत कोई भी भुगतान उचित मंजूरी सहित अनंतिम माना जायेगा जब तक कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर में उनकी कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित होंगी।

दि. कु. मुस्ताफी, उप सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए-12022/2/2006-प्रशा. IV-- भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आई.एस.एस.) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में पदोन्नति हो जाने तथा तदुपरांत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश संख्या 12016/8/एसएजी/06-07/ 2005-आईएसएस दिनांक 26.07.2006 के तहत, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एफओडी), जयपुर, जोनल कार्यालय में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग), नई दिल्ली में निदेशक, श्री सर्वेश कुमार को दिनांक 31.07.2006 की अपराह्न से कार्य भारमुक्त किया जाता है।

दि. कु. मुस्ताफी, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जून 2006

सं. ए-19016/1/2003-प्रशा. I-- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 7/7/2006-ईओ(एसएम-1) दिनांक 6 जून, 2006 के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसरण में, डॉ. रमेश चंद्र पाण्डा, आईएस (तमिलनाडु : 72) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में 7 जून, 2006 के पूर्वाह्न से सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. 11018/2/2005-आईएसएस--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर के.सां.सं., सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में उप निदेशक के रूप में तैनात भारतीय सांख्यिकीय सेवा के एसटीएस स्तर के अधिकारी श्री तेजवीर सिंह 30 जून, 2006 अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गए।

भारती दत्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2006

सं. ए-12034/2/2004-प्रशा. IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, वर्तमान में विधि और न्याय राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) के निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री शंभु कल्लोलीकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 91) को दिनांक 14 जून, 2006 के अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं। श्री शंभु कल्लोलीकर का समय से पूर्व उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन किए जाने का प्रस्ताव बढ़ाए गए "कूलिंग ऑफ" की शर्तों के अधधीन है। वे दिनांक 12.06.2010 के बाद ही (अर्थात् 13.06.2007 को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात 3 वर्ष के "कूलिंग ऑफ" के उपरांत) पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।

यशवंत सिंह, उप सचिव

भारत का विधि आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. ए. 38011/1/2006-एल.सी.--अधिवर्षिता की आयु होने पर, भारत का विधि आयोग, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के श्री भरत सिंह, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2006

सं. के-13024/1/2006-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री के. वेंकटरामन, (ii) श्री कृष्णस्वामि चन्दु, (iii) श्री बी. रामसुब्रमणियन, (iv) श्री सा. मणिकुमार और (v) श्री आ. सेलवम को उसी वरीयताक्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अगस्त 2006

सं. 14016/28/2005-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (यू.टी.), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत लक्षद्वीप/दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	रैंज सं.	जन्म तिथि
1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
1.	के. सीमसेखरन	लक्षदीप	10.03.1951
2.	राधे श्याम मीणा (अ.ज.जा.)	डी-1/508	03.04.1951
3.	गंगा सहाय मीणा (अ.ज.जा.)	डी-1/509	01.10.1951
4.	रामजी लाल मीणा (अ.ज.जा.)	डी-1/567	03.08.1946
5.	सज्जन सिंह (अ.ज.जा.)	डी-1/510	01.07.1951
6.	लीलाराम जेफ (अ.ज.जा.)	डी-1/544	10.01.1952

1	2	3	4
7.	कमल राम मीणा (अ.ज.जा.)	डी-1/511	01.01.1951
8.	जीवन सिंह गिल	डी-1/583	01.01.1953
9.	जसवीर सिंह	डी-1/593	10.12.1954

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अगस्त 2006

सं. I-18011/8/2006-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती अस्वाति जी., आईपीएस (एमएच : 2000)	04.09.2002
2.	चीकटला स्टालिन बाबू, आईपीएस (एमएच : 2001)	16.06.2004
3.	सिखे रवीन्द्र अनंत, आईपीएस (एमएच : 2002)	23.12.2004

जे. बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2006

सं. 24012/86/99-आई.पी.एस. II--यतः श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस (पी बी : 83) संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथा उन्होंने 01.09.1997 को बोस्निया एवं हरजेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन में उप सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। तत्पश्चात उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा तथा उनकी अंतिम बार बढ़ायी गयी अवधि की समय-सीमा 15.08.2003 को समाप्त हो गई;

और यतः, उक्त श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस को 06.01.2004 को तत्काल अपने मूल संवर्ग, अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग में वापिस आने की सलाह दी गई थी;

और यतः, उक्त श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस 15.08.2003 के बाद संयुक्त राष्ट्र में अनधिकृत रूप से प्रतिनियुक्ति पर बने हुए हैं और इसलिए उन्हें 2 मार्च, 2005 को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 7(2)(ग) के उपबंधों के तहत एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्यों न उक्त नियम के उपबंध उनके मामले में लागू किए जाएं;

और यतः, उक्त श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस ने उक्त नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया और उनको इस मंत्रालय के दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के समसंख्यक पत्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से 28.09.2005 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया था;

और यतः, उक्त श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस ने उक्त पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया;

और यतः इस मामले पर पुनः विचार किया गया और उनकी सतत अनधिकृत अनुपस्थिति एवं उनके द्वारा इस मंत्रालय के पत्रों का उत्तर न दिए जाने के आलोक में उनके मामले में उक्त नियम के नियम 7(2)(ग) के उपबंधों को लागू करना वांछनीय समझा गया।

और अतः, अब राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 7(2)(ग) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस (पी बी : 83) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मानते हैं। श्री अब्राहम मथई नूरनल, आई पी एस (पी बी : 83) को इसी तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से कार्यमुक्त भी किया जाता है। तदनुसार यह अधिसूचित किया जाता है।

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

वाई. पी. ढोंगरा, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 अगस्त 2006

सं. 14016/21/2006-यू.टी.एस. I--राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकुट मिथि को 19 जुलाई, 2006 से अगले आदेश होने तक उप-राज्यपाल के पदनाम में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करते हैं।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2006

सं. ए-32013/3/2006-प्रशा. I(जी)--राष्ट्रपति, श्री एल. के. जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 70) को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी एफ-10/2006--भारत के राष्ट्रपति ने श्री अलेक्जेंडर विकेन्तीविच मैन्तीकी की मुम्बई में रूसी परिसंघ के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अलेक्जेंडर विकेन्तीविच मैन्तीकी को कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ राज्य तथा दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र होंगे।

शाम के मुडगिल, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी एफ-04/2006--भारत के राष्ट्रपति ने श्री अनिल धारकर की कोलकता में लक्ज्मबर्ग के ग्रैंड डची के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अनिल धारकर को कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्य होंगे।

शाम के मुडगिल, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए-19013/3/2003-प्रशासन- I क--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.06.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/20/2005-सी एस-II और संवर्ग प्रशासन अनुभाग, व्यय विभाग के दिनांक 6.7.2006 के का. ज्ञा. सं. ए-32022/2/2004-सी ए एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री आर. के. मसंद की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 31.12.2006 तक अथवा जब तक नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध नहीं होता अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री आर. के. मसंद की तदर्थ नियुक्ति उन्हें पद पर अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता के किसी दावे का कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2002-प्रशासन- I क--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2006 और 5.6.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/21/2005-सी एस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री पी. एल. सोनी, नियमित आशुलिपिक ग्रेड क और ख (विलयित) (निजी सचिव) को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में 05.06.2006 से 30.06.2006 तक तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री पी. एल. सोनी की तदर्थ पदोन्नति उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में नामित) में वरिष्ठता के किसी दावे का कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

सं. ए-32014/2/2002-प्रशासन- I क--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 30.6.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/2/2006-सी ए एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड "ग" को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में 6,500-10,500/- रुपये के वेतनमान में 31.12.2006 तक और उनके सामने बतायी गई तारीख से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (के.स.आ.सेवा) सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क और ख" (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री/सुश्री	
1.	एन. एस. शर्मा	01.06.2006
2.	तरुण कुमार	10.07.2006
3.	आत्मप्रकाश	10.07.2006
4.	प्रवीण सिंह	10.07.2006
5.	आर. श्रीकांत	10.07.2006
6.	वंदना सिंह	10.07.2006

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उन्हें के.स.आ.से. के निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं देगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी और सरकार तदर्थ पदोन्नति को किसी समय रद्द करने और अधिकारी को उस पद पर, जिससे वे पदोन्नत किए गए थे, प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2005

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापन

सं. 2005 की अधिसूचना सं. 32 (फा. सं. ए-38012/26/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री पी. एक्स. फर्नान्डीज, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायगढ़ का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2005 से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. 2005 की अधिसूचना सं. 33 (फा. सं. ए-38012/31/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री स्वप्न कुमार घोष, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंबई का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक

02.01.2006 (अपराह्न) से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

दीपक खाण्डेकर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 01 (फा. सं. ए-38012/29/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री पी. मोहन कुमार, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 13.01.2006 से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 02 (फा. सं. ए-38012/30/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री एस. आर. दाभोले, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-I का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 20.01.2006 से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 04 (फा. सं. ए-38012/4/2006-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री कार्योत्तर अनुमोदम को एतद्वारा सी. सुब्रतो बासु, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, कोलकाता का भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह "क" से सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48क के साथ पठित मूल नियम 56ट के अंतर्गत दिनांक 31.12.2005 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 05 (फा. सं. ए-38012/18/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री आर. एस. सहरावत, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ जोन का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48क के अंतर्गत दिनांक 26.10.2005 (अपराह्न) से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 06 (फा. सं. ए-38012/03/2006-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री आई. एच. खान, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क, एवं सीमा शुल्क, सूरत-II का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 28.02.2006 से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 07 (फा. सं. ए-38012/34/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री ए. जी. वी. रायेन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्गापुर-III डिवीजन का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 23.02.2006 से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 08 (फा. सं. ए-38012/1/2006-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री के. एस. भट्ट, एस डी आर, सीस्टेट, बंगलौर का स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 10 (फा. सं. ए-38012/28/2005-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री पी. वेंकटेश्वर रेड्डी, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-II का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48-क के अंतर्गत दिनांक 28.02.2006 (अपराह्न) से प्रभावी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 11 (फा. सं. ए-38012/02/2006-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री वी. वी. वाजे, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इलाहाबाद का सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 01.03.2006 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 13 (फा. सं. ए-38012/05/2006-प्रशा. II)-- राष्ट्रपति, श्री ए. डब्ल्यू. शेख, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-II का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न) से मंजूर करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

दिनांक 13 अप्रैल 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 15 (फा. सं. ए-38012/13/2006-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के तहत श्री ई. आर. बरेटो, उपायुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बड़ौदा-I, के दिनांक 01.05.2006 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 18 (फा. सं. ए-38012/11/2006-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के तहत श्री सी. आर. एम. वाज, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा की सरकारी सेवा से दिनांक 01.05.2006 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2005

सं. 2005 का 24 (फा. सं. ए-38012/14/2005-प्रशा. 2--राष्ट्रपति जी, श्री गिरीश डब्ल्यू नादकरनी सहायक निदेशक राजस्व आसूचना निदेशालय सूरत द्वारा सरकारी सेवा वर्ग "क" से दी गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत दिनांक 31.8.2005 (दोपहर बाद) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

के. किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. 3/1/05-मुद्रा-III--राष्ट्रपति, भारत प्रतिभूति प्रेस, नासिक रोड के उप-नियंत्रक, स्टैम्प (समूह "क" राजपत्रित) श्री एम. वी. रामाकृष्णा राव, जो 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में हैं, की प्रतिनियुक्ति अवधि को 8.2.2005 से 30.09.2006 तक सहर्ष बढ़ाते हैं।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. 2/3/2004-मुद्रा-III--श्री पी. एस. ट्याडे, नियंत्रण अधिकारी, प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 2006 (अपराह्न) को नियंत्रण अधिकारी, का पद भार छोड़ दिया है। उनका नाम प्रतिभूति मुद्रणालय की नामावली से उसी तारीख से हटा दिया गया है।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2006

सं. 13/8/2003-डीआरटी--श्री किशन लाल शर्मा, आरएचजेएस, जो फिलहाल कार्यकाल आधार पर पीठासीन अधिकारी, त्रिगुण वसुली अधिकरण-I, दिल्ली, के रूप में कार्य कर रहे हैं, की सेवाएं, तत्काल प्रभाव से, राजस्थान उच्च न्यायालय को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. थॉमस, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. ए-32015/1/2004-आ.स. (प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ अन्वेषकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी स्थिति पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति का पद	पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर कार्य करने की अवधि
1.	श्री लटूर सिंह	आर्थिक अधिकारी	01.07.2006 से 31.12.2006
2.	श्री आशीष बनर्जी	आर्थिक अधिकारी	01.07.2006 से 31.12.2006

यह पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गई हैं, जिसके लिए उक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को इन पदों पर बने रहने या इन ग्रेडों में वरीयता मांगने का या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारी को उक्त तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना अथवा सूचना आदि दिये बिना ही समाप्त कर सकती है।

समरेन्द्र साहु, अपर आर्थिक सलाहकार

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-12022/1/2003-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री अनिल गोपीशंकर मुक्तिम, आई.ए.एस. (गुजरात-85) को दिनांक 30.06.06 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो कोई भी पहले हो, श्री राहुल खुल्लर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू : 75) के स्थान पर 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वाणिज्य विभाग, (पूर्ति प्रभाग) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. 26/2006 (सं. ए-42011/20/2006-स्थापना-1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वरिष्ठता कोट, 2003 के आधार पर वर्ष 2003

की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में जोड़ने हेतु किए गए नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थायी सहायकों को वाणिज्य विभाग के संवर्ग में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :--

क्र. अधिकारी का सं. नाम	एससीएस एल सं.	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तारीख
1. श्री जी. एस. नेगी	11	डीजीएफटी	17.7.2006 (पूर्वाह)
2. श्री नरेन्द्र सिंह	42	वाणिज्य विभाग	17.7.2006 (पूर्वाह)

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-32012/1/2006-स्था.-I--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 जून, 2006 के आदेश सं 5/1/2006-सीएस-I (भाग) तथा दिनांक 4 जुलाई, 2006 के अ.शा. पत्र द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सुश्री अनीता प्रकाश, सीएसएस, अवर सचिव को 3 जुलाई, 2006 के पूर्वाह से वाणिज्य विभाग की पंजी पर ले लिया गया है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 25 जुलाई 2006

सं. 28/2006 (ए-19011/30/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री राजीव खेर, आईएस (उ.प्र. : 80) को 25 जुलाई, 2006 के पूर्वाह से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2006

सं. 11/2006 (ए-12022/8/2000-स्था.--राष्ट्रपति श्री विश्व नाथ सिन्हा, आईएस (केएल : 92) को 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह से 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। इनके चार वर्षों का केन्द्रीय कार्यकाल, 22.04.2006 से, जिस तारीख से उन्हें 'अनिवार्य प्रतीक्षा' में रखा गया था अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

चन्द्र भान, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. (ए-19011/7/2005-स्थापना--इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड एफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) के महानिदेशक, पदेन सदस्य सचिव के रूप

में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री तलमीज अहमद, आईएफएस (74) ने 17 अप्रैल, 2006 को पूर्वाह से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए-12011/10/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मई 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2006-सीएस-2 की शर्तों के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में धारित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित वर्ग "ग" आशुलिपिकों की तदर्थ आधार पर 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में 31.12.2006 तक अथवा जब तक नियमित निजी सचिव उपलब्ध नहीं हो जाते अथवा अगले आदेश किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव (क और ख विलयित) के रूप में नियुक्ति करते हैं :--

1. श्री सुरेश चन्द्र
2. श्री एस. के. ठाकुर
3. श्री जे. के. टंडन

2. उपर्युक्त नियुक्तियां विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही हैं तथा यह तदर्थ नियुक्ति, उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों को इस पद पर नियमित नियुक्ति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए-23011/16/2002-मा. सं.-II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.6.2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/25/2004-सी.एस-I के अनुसार वर्ष 2003 (वरिष्ठता कोटा) के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री राकेश कटारिया (एससीएस एल सं. 478/एसएल-89) को उर्वरक विभाग और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के उर्वरक संवर्ग में नामित करने के आधार पर दिनांक 17.11.2006 के अपराह से रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-23011/16/2002-मा. सं.-II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.6.2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/25/2004-सी.एस-I के अनुसार वर्ष 2003 (वरिष्ठता कोटा) के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने

के परिणामस्वरूप, श्री नन्द लाल (एसएल-92) को उर्वरक विभाग और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के उर्वरक संवर्ग में नामित करने के आधार पर दिनांक 11.7.2006 के अपराह्न से रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-19011/8/2005-मा. सं.-II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.6.2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/25/2005-सी. एस-II में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसरण में श्री नन्द लाल की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को पुनः दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ है और इससे उन्हें न तो इस पद पर अनिश्चित काल तक के लिए बने रहने और न ही केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए-19011/8/2005-मा. सं.-II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.6.2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/20/2005 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसरण में श्री ए. के. बहल की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को पुनः दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ है और इससे उन्हें न तो इस पद पर अनिश्चित काल तक के लिए बने रहने और न ही केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. ए-23011/16/2002-मा. सं.-II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.6.2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/25/2004-सी.एस-I के अनुसार वर्ष 2003 (वरिष्ठता कोटा) के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री अशोक कुमार (एससीएसएल सं. 442/एसएल-89) को उर्वरक विभाग और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के उर्वरक संवर्ग में नामित करने के आधार पर दिनांक 14.7.2006 के अपराह्न से रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन--भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में कार्यरत श्री आर.एल. मीणा की संयुक्त सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 18.7.2006 से 6 माह की आगे अवधि के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदधारी व्यक्ति मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

पी.जे. माईकल, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2006

सं. ए-12011/12/2006-स्थापना.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.6.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/25/2004-सी. एस. I के अनुसरण में वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री एस.सी. कश्यप (एस सी) को 19 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वर्ष 2003 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में से उपभोक्ता मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 6,500-200-10,500/-रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस.के. नायक, अवर सचिव

दिनांक 4 अगस्त 2006

सं. ए-12011/14/2006-स्थापना.--राष्ट्रपति, समय-समय पर यथा संशोधित बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 28(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर. माथुरबूथम, नियमित उप-निदेशक (विधिक माप विज्ञान) को 17 जुलाई, 2006 अर्थात् निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश की सूचना देने वाले संघ लोक सेवा आयोग के पत्र की तारीख से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

एस.के. नायक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 अगस्त 2006

सं. ए-32013/7/2004-स्थापना.--राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में श्री भगत राम मीणा की राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई में 14,300-400-18,300/-रुपए के वेतनमान में निदेशक ग्रेड-II के पद तदर्थ नियुक्ति को 6.8.2006 (पूर्वाह्न) से छह महीने की अवधि के लिए

यथा नियमित नियुक्ति के लिए विधिवत अनुमोदित व्यक्ति के उपलब्ध जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

इस नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा के का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हरजिन्दर सिंह मल्ही, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2005-रा.प. शाला.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के समक्ष दी गई तारीख से राष्ट्रीय सर्वेक्षण शाला में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक एस बी (रसायन) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

सं. अधिकारियों के नाम

डॉ एन.के. भाटिया, वैज्ञानिक एस बी (रसायन) 17/5/06 (पूर्वाह)

श्री एस.के. अग्रवाल, वैज्ञानिक एस बी (रसायन) 17/5/06 (पूर्वाह)

2. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

हरजिन्दर सिंह मल्ही, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. एसएम/01/006/2005.--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से आगामी आदेशों तक विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में अपर महासर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या अधिकारी का नाम नियुक्ति की तारीख

1. श्री चन्दन चक्रवर्ती 30-05-2006

2. उपर्युक्त अधिकारी को उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत सिविल अपील संख्या 6321-6322/98 के परिणाम के अधीन पदोन्नत किया गया है।

ए.जे. कुरियन, निदेशक

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-12023/03/99-प्रशा.1(ए).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.6.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2004-सी.एस.1 के अनुसरण में वरिष्ठता कोट के अंतर्गत वर्ष 2004, के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रपति-मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग) के नियमित सहायक, श्री योगिन्द्र सिंह, जोकि वर्तमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, को विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में 30.06.2006 (पूर्वाह) से अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-32011/01/2001-प्रशा.1(ए).--सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, श्री असीम कुमार मजूमदार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 6,500-10,500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ, विश्लेषक के पद पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 26.6.2006 से 25.12.2006 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में नियमित करने अथवा भविष्य में वरिष्ठता आदि के लाभ का अधिकार प्रदान नहीं करती। विभाग को संबंधित अधिकारी को बिना कोई कारण बताए तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-19015/04/05-प्रशा.1(ए).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून, 06 के आदेश सं. 4/2/2006-सी.एस.1 के अनुसरण में राष्ट्रपति-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव), श्रीमती सुमन के. अग्रवाल को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेशन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तत्काल प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा सेलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-19014/05/2004-प्रशा.1(ए).--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक "सी" के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10.07.2006 (अपराह) से अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए-12023/01/06-प्रशा.1(ए).--इस विभाग की दिनांक 30/01/2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5/8/2006-सी.एस.II के अनुसरण में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड "सी" आशुलिपिकों की 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 31.12.2006 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :-

1. श्रीमती मधु सूर्या
2. श्री राजेश चांदवानी, बायो टेक्नोलोजी विभाग
3. श्री के. जयरामन

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. ए-19014/05/2004-प्रशा. 1(ए).--इस विभाग की दिनांक 12.7.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति श्री राजीव कुमार को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर वैज्ञानिक "सी" के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10.7.2006 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2006

सं. ए-19013/02/2005-प्रशा. 1(ए).--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, रुड़की के वैज्ञानिक 'ई-1', डॉ. वी. सी. गोयल की 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में, 25.7.2006 से आगे एक वर्ष के लिए अथवा नियमित उम्मीदवार के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं। उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित होगी।

जे.के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-32011/01/2005-प्रशा. 1(ए).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जुलाई, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2004-सी.एस. 1 के अनुसरण में वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नामांकन होने पर राष्ट्रपति--सर्वश्री उमेश पाण्डे तथा अरुण कंसल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 6,500--10,500 रुपये के वेतनमान में 21 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. ए-15012/2/2006-प्रशासन-1 (पार्ट).--अधिवर्षिता की अनुप्राप्त करने पर श्री आर. एस. सिसोदिया, सहायक आयुक्त (आरईए) 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

सं. ए-15012/3/2006-प्रशासन-1 (पार्ट).--अधिवर्षिता की अनुप्राप्त करने पर श्री पी. एम. ए. हकीम, सचिव (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग) 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

सं. ए. 15012/4/2006-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री पी. एल. चोपड़ा, अवर सचिव 31 जुलाई के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2006

सं. 32013/3/2005-स्था.-III.--दिनांक 7.6.2006 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति जी उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री एस. बालासुब्रमण्यम, को 6.7.2006 (पूर्वाह्न) से 31.12.2006 तक तदर्थ आधार पर 10,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. 4-7/2004-प्रशासन.--श्रीमती रेवा नय्यर, भा.प्र.से. (हरियाणा 68) ने सेवा निवृत्त होने पर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व पदभार 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एस. के. दरगन, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2006

सं. 4-31/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती दीपा जैन सिंह, भा. प्र.से. (हरियाणा : 71) को दिनांक 1.8.2006 की पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. दरगन, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए-12011/1/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री दीपिका कच्छल, भारतीय सूचना सेवा (1994) को दिनांक 11 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में उपसचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उप सचिव के रूप में सुश्री दीपिका कच्छल की नियुक्ति 11 जुलाई, 2006 से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

बी. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. 19011/7/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक श्री आदित्य प्रकाश (आईएसएस) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए 31.07.2006 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. यह अधिसूचना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 12016/8/एसएजी/06-07/2005-आईएसएस के अनुसरण में जारी की जाती है।

अनिल काकरिया, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. 3(1)/2006-कार्मिक-I :--अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2006 के परिणाम के आधार पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एतद्वारा श्रीमती रेवती सुरेश कुमार, सहायक को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 31.07.2006 के पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अगस्त 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री सुनील आर. देसाई, कर्मचारी कोड सं. 1283 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान

केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर से वैज्ञानिक-'सी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 21 जनवरी, 1999 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

दिनांक 2 अगस्त 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री डी. वेंकट रमण, कर्मचारी कोड सं. 3317, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, त्रिपुरा राज्य एकक, अगरतला, से वैज्ञानिक-'बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 04 दिसम्बर, 1993 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री प्रवीण साहनी, कर्मचारी कोड सं. 1289 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर से वैज्ञानिक-'बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 1 मई, 1992 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं, और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री पी. सीतारमैया, कर्मचारी कोड सं. 0496 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पुणे, से वैज्ञानिक-'बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 अप्रैल 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री मुकेश एस. पुरोहित, कर्मचारी कोड सं. 2952, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 04 अगस्त, 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री मुकेश एस. पुरोहित दिनांक 18.07.1997 से 04.08.1997 तक ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, इसलिए उक्त अवधि को ड्यूटी पर उपस्थिति के रूप में न माना जाये।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती एस. वी. कार्तिक्यायिनी, कर्मचारी कोड सं. 4560 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक, बंगलौर से वैज्ञानिक-'बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2000 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, एतद्द्वारा श्री एस. मनोहरन, कर्मचारी कोड सं. 3819, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 9 जून, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था. I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री दीपक भटनागर, कर्मचारी कोड सं. 1428 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हरियाणा राज्य एकक, चण्डीगढ़ से वैज्ञानिक-'बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 07 अगस्त 1989 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना. I)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए-32022/1/99-प्रशासन--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय में नियमित आशुलिपिक श्रेणी "क" तथा "ख" (विलय) में कार्यरत श्री किशन लाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006-सी एस II के अनुसरण में दिनांक 31.12.2006 तक की अवधि या नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक या जो भी पहले हो नागर विमानन मंत्रालय में 10,000--15,200 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ आधार पर की गई है तथा अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक निरन्तर इस पद पर या प्रधान निजी सचिव, सीएसएसएस की श्रेणी में, अपनी वरिष्ठता का कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2006

सं. ए-12022/5/2004-प्रशा.--इस मंत्रालय की दिनांक 26 जुलाई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा, विशेष सचिव का वेतनमान 26,000 रुपए नियत के रूप में पढ़ा जाए।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. ई आर बी-1/2006/2/48--श्री ए. के. निगम, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल कार्मिक सेवा, दक्षिण रेलवे को 30.6.2006 के पूर्वाह्न

से 22,400--24,500/- रु. के ग्रेड में सलाहकार (औ. सं.) रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई आर बी-1/2006/2/56--श्री राकेश चोपड़ा, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा, उत्तर रेलवे को 30.6.2006 के अपराह्न से 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी) रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2006

सं. ए. 22012/1/2005-ई-II (बी)--इस विभाग की दिनांक 16.12.2005 और 6.3.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री वी. पी. शर्मा और श्री आर. एल. आहूजा, प्रधान निजी सचिव को दिनांक 31.12.2006 की अवधि तक अथवा नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हैं।

बी. एन. मिश्र, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2006

सं. ए. 12025/35/2006-ई-II (बी)--भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संतोष नौटियाल, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 68) अधिवर्षिता की आयु में पहुँचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 31.07.2006 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. एन. मिश्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2006

सं.आरडब्ल्यू/एपी/ईई(688)/स्था.-II--राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' (ईई 94/223) के कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (एन.एफ.एस.जी.) श्री बोबिन कुमार का त्याग पत्र दिनांक 1.08.2006 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

ए. पी. पाढ़ी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2006

सं. 35/2006. फा.सं. 4/6/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री एन. एस. बिष्ट, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 27 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. 42/2006-मि.सं. ए-35018/1/2005-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारी श्री रोहताश दहिया को प्रतिनियुक्ति आधार पर 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में भारत सरकार में अवर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (थर्मल) पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 1.8.2006 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष के लिये, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक नियुक्ति करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 43/2006-मि.सं. ए-35018/3/2001-प्रशा. एक--केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारी श्री आर. के. जैन जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सदस्य (थर्मल) पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 जुलाई, 2006 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2006

सं. 18/2006, फाईल सं. 25/3(9)/2005-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2004 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री विशाल दशरथ जरोडे को दिनांक 10.07.2006 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री विशाल दशरथ जरोडे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 8th August 2006

No. A. 39011/2/06-Admn.—Shri J. Radhakrishnan, Section Officer, President's Secretariat, retired voluntarily from Govt. service with effect from the forenoon of 1st August, 2006.

R. S. RANA, Dy. Secy.

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-11001 the 1st August 2006

No. A. 22017/6/2004-PMA—Shri Ch. V. B. Setty, a Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Home Affairs stands relieved from the personal staff of Shri M. K. Narayanan, National Security Adviser with effect from the forenoon of 24th July 2006.

P. K. ROY, Under Secy.

The 2nd August 2006

No. A. 38013/1/2006-PMA—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Damodar Dayal, Section Officer in this office, retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st July, 2006.

P. K. ROY, Under Secy.

The 4th August 2006

No. A. 38012/1/2006-PMA—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Ved Prakash Sharma, Director (OL) in this office, retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st July, 2006.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd August, 2006

No. A. RS/6 (ii)/2006/56-Perl.—On being relieved from the post of Deputy Manager in the Cement Corporation of India Ltd., Shri K. Misra, has been appointed on deputation as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff on Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha (Shri K. Rahman Khan) w.e.f. the forenoon of the 12th May, 2006 until further orders.

2. The appointment of Shri K. Misra is at the discretion of the present Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

The 3rd August 2006

No. RS. 41(i)/2006/57-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to sanction financial upgradation in accordance with the Assured Career Progression Scheme in respect of the following person in the Editorial & Translation Service with effect from the 3rd August 2006 :—

Sl. No.	Name & Designation	Present Scale of Pay	Revised Scale of Pay
1.	Sh. Bhalendu Bhushan Dwivedi, Assistant Editor	Rs. 8,000-275-13,500	Rs. 10,000-325-15,200

2. The other conditions of the financial upgradation would be as per the Recruitment and Conditions of Service Order dated the 5th October 2001.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st August 2006

No. F. 15/28/2004/GN-5695/AN-I—Shri Shailendra Singh Chauhan is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on the personal staff of Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Shri Ratilal Kalidas Varma) with effect from 10th July, 2006 until further orders.

2. The appointment of Shri Shailendra Singh Chauhan to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th July 2006

No. A. 19013/2/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Uday Kumar Singh as Deputy Director (in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200) in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 10th July, 2006 for a period of 2 years or until further orders, whichever is earlier.

MUKUL CHATURVEDI, Dir.

No. A. 19013/1/2006-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Mittal, IRS (IT : 87) as Director in the National Security Council Secretariat in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from the forenoon of

17th July, 2006 on deputation basis for a period of 2 years or until further orders, whichever is earlier.

MUKUL CHATURVEDI, Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 13th July 2006

No. A. 12025/25/2003-Adm. I.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 14th June, 2005, the President is pleased to extend the tenure of deputation of Dr. C. Muralikrishna Kumar, Scientist 'F', Department of Information Technology as Adviser (ICT) in the Planning Commission for a further period of six months w.e.f. 07-06-2006 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 3rd August 2006

No. F. 6 (1738)/98-Adm. I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2006-IES dated 30.6.2006, Shri M. R. Anand, NFSG Officer of IES and Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 03.08.2006 (FN) to join the Department of Economic Affairs.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2006

No. A. 12022/2/2006-Admn.-IV.—Consequent upon his selection for appointment to the post of Executive Director in the office of Central Wool Development Board, Jodhpur under Ministry of Textiles for a period of five years vide DOPT's O.M. NO. 10/13/2005-EO (MM-II) dated May 16, 2006 and in pursuance of Department of Economic Affairs O. M. No. 13019/2/2006-IES dated 18.5.2006, Shri Om Prakash, Director, Regional Evaluation Office, Jaipur is relieved from the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) w.e.f. the afternoon of 20.07.2006, with instructions to take up his new assignment immediately.

2. Any payment authorised to Shri Om Prakash, till the Terms and Conditions of his deputation as Executive Director in the Central Wool Development Board, Jodhpur is settled, would be provisional with proper sanction, in terms of Ministry of Finance's O. M. No. F. 2 (63)-E-III/60 dated 7.9.1960.

D. K. MUSTAFI, Dy. Secy.

The 31st July 2006

No. A. 12022/2/2006-Admn. IV.—Consequent upon his promotion from Junior Administrative Grade (JAG) of the

Indian Statistical Service (ISS) to Senior Administrative Grade (SAG) and subsequent posting in Zonal Office, NSSO (FOD), Jaipur vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12016/8/SAG/06-07/2005-ISS dated 26.7.2006, Shri Servesh Kumar, Director is relieved from the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), New Delhi with effect from the afternoon of 31.7.2006.

D. K. MUSTAFI, Dy. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P. I.

New Delhi-110001, the 27th June 2006

No. A. 19016/1/2003-Ad. I.—In pursuance of the orders of the Appointments Committee of the Cabinet communicated vide Department of Personnel & Training Order No. 7/7/2006-EO (SM.I) dated 6th June, 2006 Dr. Ramesh Chandra Panda, IAS (TN : 72) has assumed the charge of the post of Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation with effect from the forenoon of 7th June, 2006.

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 3rd July 2006

No. 11018/2/2005-ISS—On attaining the age of superannuating, Shri Tejvir Singh, an STS level officer of the Indian Statistical Service posted as Deputy Director, CSO, Ministry of Statistics and Program Implementation has since retired from service w.e.f. the afternoon of 30th June 2006.

BHARATI DATTA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 13th June 2006

No. A. 12034/2/2004-Admn. IV. (L. A)—The President is pleased to relieve Shri Shambhu Kallollikar, IAS (TN : 91), presently working as Private Secretary to the Minister of State (Law & Justice) (Shri K. Venkatapathy) with effect from 14th June 2006 (AN). The proposal for premature repatriation of Shri Shambhu Kallollikar to his parent cadre is subject to the condition of extended 'cooling off'. He will become eligible for Central deputation again only after 12.06.2010 (i.e. three years 'cooling off' after 13.06.2007, the end of his normal tenure).

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

LAW COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 31st July 2006

No. A. 38011/1/2006-L.C.—On attaining the age of superannuation, Shri Bharat Singh, Section Officer, Law

Commission of India, Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, retires from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2006.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi, the 28th July 2006

No. K. 13024/1/2006. US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri K. Venkataraman, (ii) Shri Krishnaswami Chandru, (iii) Shri V. Ramasubramanian, (iv) Shri S. Mani Kumar and (v) Shri A. Selvam to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd August 2006

No. 14016/28/2005-UTS-II—Under clause (c) of Sub-rule (2) of rule 7, read with Sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Lakshadweep/Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	(S/Shri)		
1.	K. Somasekhran	Lakshadweep	10.03.1951
2.	Radhey Shyam Meena (ST)	D-I/508	03.04.1951
3.	Ganga Sahay Meena (ST)	D-I/509	01.10.1951
4.	Ramji Lal Meena (ST)	D-I/567	03.08.1946
5.	Sajjan Singh (ST)	DI/510	01.07.1951
6.	Lilaram Jeph (ST)	D-I/544	10.01.1952
7.	Kamal Ram Meena (ST)	D-I/511	01.01.1951
8.	Jiwan Singh Gill	D-I/583	01.01.1953
9.	Jasvir Singh	D-I/593	10.12.1954

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 4th August 2006

No. I-18011/8/2006-IPS.IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of Indian Police Service borne on the cadre MAHARASHTRA with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Smt. Aswati, G, IPS (MH : 2000)	04.09.2002
2.	Cheekatla Stalin Babu, IPS (MH : 2001)	16.06.2004
3.	Shisve Ravindra Anant, IPS (MH : 2002)	23.12.2004

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

New Delhi, the 7th August 2006

No. 24012/86/99-IPS. II—WHEREAS Shri Abraham Mathai Noornal, IPS (PB : 83) proceeded on deputation to the United Nations and joined as Deputy Chief of Security of the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina on 01-09-1997. Thereafter, his deputation was extended from time to time and his last extended period expired on 15.08.2003;

AND WHEREAS the said Shri Abraham Mathai Noornal IPS was advised on 06.01.2004 to report back to his parent cadre i.e. Indian Police Service in the Punjab Cadre forthwith;

AND WHEREAS the said Shri Abraham Mathai Noornal IPS is continuing on deputation with United Nations unauthorisedly beyond 15.08.2003 and as such was issued with a Notice under the provisions of rule 7(2) (c) of the All India Services (Leave) Rules, 1955, on 21st March 2005, calling for his explanation as to why the provision of the said rule should not be invoked in his case;

AND WHEREAS the said Shri Abraham Mathai Noornal IPS did not respond to the above said Notice and he was given a last chance through the Permanent Mission of India to the United Nations to furnish his explanation by 28.09.2005 vide this Ministry's communication of even number dated 14th September, 2005;

AND WHEREAS the said Shri Abraham Mathai Noornal, IPS chose to ignore the said communication also;

AND WHEREAS the matter was further considered and it was found desirable to invoke the provisions of rule 7(2) (c) *ibid* in his case in view of his continued unauthorized

ence and non response to this Ministry's communications;

AND NOW, THEREFORE, the President, in exercise of powers conferred by the provisions of rule 7(2) (c) of all India Services (Leave) Rules, 1955, is pleased to Shri Abraham Mathai Noornal, IPS (PB : 83) as deemed have resigned from the Indian Police Service with effect the date of issue of this notification. Shri Abraham Mathai Noornal, IPS (PB : 83) shall also stand relieved from the Indian Police Service from this date. It is notified accordingly.

for and on behalf of the President of India

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

New Delhi-1, the 7th August 2006

No. 14016/21/2006 UTS. I.—In exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Mukut Mithi as Administrator of the Union Territory of Pondicherry with the designation of Lieutenant Governor with effect from 19th July, 2006, until further orders.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st August 2006

No. A. 32013/3/2006-Ad. I. (G)—The President is pleased to appoint Shri L. K. Joshi, IAS (MP : 70), as Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 1st August, 2006, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st July 2006

No. D-III/460/CF-10/2005—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Alexander Vikentievich Mantytckiy as Consul General of the Russian Federation in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Alexander Vikentievich Mantytckiy comprises the States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Chhattisgarh and the Union Territory of Daman and Diu.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

No. D-III/460/CF-4/2006—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Anil Dharker

as Honorary Consul of the Grand Duchy of Luxembourg in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Anil Dharker comprises the States of Maharashtra, Goa and Gujarat.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th July 2006

No. A. 19013/3/2003-Ad. IA.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O. M. No. 5/20/2005-CS.II dated 19.6.2006 and Cadre Administration Section, Department of Expenditure's O. M. No. A. 32022/2/2004-CAS dated 6.7.2006, the President is pleased to extend the ad-hoc promotion of Shri R. K. Masand, as Sr. Principal Private Secretary upto 31.12.2006 or till a regular Sr. Principal Private Secretary becomes available or till further orders, whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Shri R. K. Masand to the post of Senior Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of PPS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

No. A. 32014/1/2002-Ad. IA.—In pursuance of the Department of Personnel and Training O. Ms. No. 5/21/2005-CS-II dated 31.3.2006 and dated 5.6.2006, the President is pleased to appoint Shri P. L. Soni, regular Steno Grade A&B (merged) (PS) of the Central Secretariat Stenographers Service as Principal Private Secretary in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis w.e.f. 5.6.2006 to 30.6.2006 in the Ministry of Finance, Department of Revenue.

2. Ad-hoc promotion of the Shri P. L. Soni to the post of Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

The 18th July 2006

No. A. 32014/2/2002/Ad. IA.—In pursuance of the Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O. M. No. A-12026/2/2006-CAS dated 30.6.2006, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of this Department as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad-hoc basis from the date mentioned against each of them and upto 31.12.2006

in the pay scale of Rs. 6,500-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Revenue :—

S. No.	Name	Date of Appointment
	(S/Shri/Ms)	
1.	N. S. Sharma	01.06.2006
2.	Tarun Kumar	10.07.2006
3.	Atam Prakash	10.07.2006
4.	Praveen Singh	10.07.2006
5.	R. Srikanth	10.07.2006
6.	Vandana Singh	10.07.2006

2. Ad-hoc promotion of the above mentioned officials will not bestow on them any claim for regular appointment in the Grade of Private Secretary of the CSSS and the service rendered by them on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and the Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert the official to the post from which they were promoted.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 30th November 2005

No. 32 of 2005 (F. No. A. 38012/26/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri P. X. Fernandez, Assistant Commissioner of Central Excise-Raigarh from Government service with effect from 31.12.2005 (F.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

New Delhi, the 26th December 2005

No. 33 of 2005 (F. No. A. 38012/31/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Swapan Kr. Ghosh, Asstt. Commissioner of Customs, Mumbai from Government service with effect from 02.01.2006 (A.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

DEEPAK KHANDEKAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 12th January 2006

No. 01 of 2006 (F. No. A. 38012/29/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri P. Mohan Kumar, Deputy Commissioner

of Central Excise-Pune from Government service with effect from 13.01.2006 under rule 48 of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 13th January 2006

No. 02 of 2006 (F. No. A. 38012/30/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri S. R. Dabhole, Assistant Commissioner of Central Excise, Mumbai-I from Government service with effect from 20.01.2006 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 2006

No. 4 of 2006 (F. No. A. 38012/4/2006-Ad. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri subarto Basu, Chief Commissioner of Customs, Kolkata from the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), Group "A" with effect from 31.12.2005 (FN) under Fundamental Rule 56K read with rule 48A of CCS (Pension) Rule 1972.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

The 14th February 2006

No. 05 of 2006 (F. No. A. 38012/18/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri R. S. Saharawat, Asstt. Commissioner, Central Excise Meerut Zone from Government service with effect from 26.10.2005 (AN) under rule 48-A of CCS (Pension) rules.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

The 16th February 2006

No. 06 of 2006 (F. No. A. 38012/03/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri I. H. Khan, Assistant Commissioner of Central Excise and Customs-Surat-II from Government service with effect from 28.02.2006 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

The 17th February 2006

No. 07 of 2006 (F. No. A. 38012/34/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri A. G. P. Rayen, Assistant Commissioner

entral Excise-Durgapur III Division from Government service with effect from 23-02-2006 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

No. 08 of 2006 (F. No. A. 38012/1/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri K. S. Bhatt, SDR, CESTAT, Bangalore with effect from 31.3.2006 (F.N.).

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

New Delhi, the 2nd March 2006

No. 10 of 2006 (F. No. A. 38012/28/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri P. Venkateswara Reddy, Deputy Commissioner of Central Excise-Mumbai-II from Government service with effect from 28.02.2006 (A.N.) under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules.

HAWA SINGH, Under Secy.

No. 11 of 2006 (F. No. A. 38012/02/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri V. V. Vaze, Assistant Commissioner of Central Excise-Allahabad from Government service with effect from 01.03.2006 (A.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

HAWA SINGH, Under Secy.

The 28th March 2006

No. 13 of 2006 (F. No. A. 38012/05/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement from Government service of Shri A. W. Shaikh, Assistant Commissioner of Central Excise-Mumbai-II with effect from 31.03.2006 (A.N.).

HAWA SINGH, Under Secy.

The 13th April 2006

No. 15 of 2006 (F. No. A. 38012/13/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement from Government service of Shri E. R. Barreto, Deputy Commissioner of Customs and Central Excise-Vadodra-I with effect from 1.05.2006 (F.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

HAWA SINGH, Under Secy.

No. 18 of 2006 (F. No. A. 38012/11/2006-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary

retirement from Government service of Shri C. R. M. Vaz, Assistant Commissioner of Customs and Central Excise-Goa with effect from 1.05.2006 (F.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

HAWA SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 15th July 2005

No. 24 of 2005 (F. No. A-38012/14/2005-AD. II.)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement tendered by Shri Girish W. Nadkarni, Asstt. Director, DRI, Surat from Government Service, Group "A" with effect from 31.08.2005 (A.N.) under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972. S

K. KIPGEN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 11th July 2006

No. 3/1/2005-Cy. III—The President is pleased to extend the deputation period of Shri M.V. Ramakrishna Rao, Deputy Controller of Stamps, (Group-'A'-Gazetted in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the India Security Press, Nashik Road with effect from 8.2.2005 to 30.9.2006.

P. K. SHARMA, Under Secy.

The 17th July 2006

No. 2/3/2004-Cy. III—On attaining the age of superannuation, Shri P.S. Tayade, Control Officer in the Currency Note Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Control Officer on 30th June 2006 (afternoon). His name stands deleted from the rolls of currency Note Press with effect from that date.

P. K. SHARMA, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi the 2nd August 2006

No. 13/8/2003-DRT—The service of Shri Kishan Lal Sharma, RHJS, presently working as Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Delhi on tenure basis, are placed back at the disposal of Rajasthan High Court, with immediate effect.

A. THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 31st July 2006

No. A-32015/1/2004-Ec. Ad. (Admn. I)—The President is pleased to appoint the following Junior investigators of the Office of the Economic Adviser

as Economic Officers in this office on ad-hoc basis for the period, as indicated against each, or till further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Post of Ad-hoc Promotion	Period	
			From	To
1.	Sh. Latoor Singh	Economic Officer	01.07.06	31.12.06
2.	Sh. Ashish Banerjee	-do-	01.07.06	31.12.06

The appointments, ordered above, is made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

SAMARENDRA SAHU, Addl. Economic Adviser

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 19th July 2006

No. A-12022/1/2003-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri Anil Gopishankar Mukim, IAS (GJ : 85) as Joint Secretary vice Shri Rahul Khullar, IAS (AGMU : 75) in Department of Commerce (Supply Division) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of five years w.e.f. 30.6.06 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

V. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2006

No. 26/2006 (No. A-42011/20/2006-E. I).—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training for making additions to the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003, on the basis of Seniority Quota 2003, the President is pleased to appoint the following permanent Assistants to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f. dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the officer	SCSL No.	Posted to	Date of Appointment
1.	Sh. G.S. Negi	11	DGFT	17.07.06 (FN)
2.	Sh. Naredra Singh	42	Commerce	17.07.06 (FN)

ANURAG SAXENA, Director

The 19th July 2006

No. A. 32012/1/2006-E.I.—Consequent upon her transfer from Department of Food and Public Distribution vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2006-

CS.I (Pt.) dated the 8th June, 2006 and D.O. dated 4th July, 2006, Ms. Anita Prakash, CSS, Under Secretary has been taken on the strength of Department of Commerce with effect from the forenoon of 3rd July, 2006.

ANURAG SAXENA, Dir.

The 25th July 2006

No. 28/2006 (A. 19011/30/2006-E.I.).—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kher, IAS (UP : 80) as Joint Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce w.e.f. the forenoon of 25th July, 2006, for a period of five years or until further orders, whichever event occurs the earlier.

ANURAG SAXENA, Dir.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st August 2006

No. 11/2006 (A. 12022/8/2000-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri Bishwa Nath Sinha, IAS (KL : 92) as Deputy Secretary in the Ministry of Textiles, in the scale of pay of Rs. 12,000-325-16,500/- with effect from the forenoon of 1st August, 2006. He will count his four years central tenure with effect from 22.04.2006, the date from which he was placed under 'compulsory wait' or until further orders, whichever event takes place earlier.

CHANDER BHAN, Dir.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 17th April 2006

No. A. 19011/7/2005-Estt.—Consequent upon his appointment as Director General, ex-officio Member-Secretary of the Indian Council of World Affairs (ICWA), Shri Talmiz Ahmad, IFS (74) has relinquished the charge of the office of Additional Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from the forenoon of 17th April, 2006.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 21st July 2006

No. A. 12011/10/2001-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS.II dated 31st May, 2006, the President is pleased to appoint the following Stenographer Grade 'C' of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary (A & B merged) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- upto 31.12.2006 or till regular Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Suresh Chander
2. Shri S. K. Thakur
3. Shri J. K. Tandon

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the above mentioned persons any claim for regular appointment etc.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 14th July 2006

No. A. 23011/16/2002-HR. II.—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers Grade of Central Secretariat Service for the year 2003 (Seniority Quota) based on the nomination by the Department of Personnel and Training to the Fertilizer cadre comprising of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals vide DoPT's O. M. No. 5/25/2004-CS. I dated 05.6.2006, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Kataria (SCSL No. 478/SL-89) as Section Officer of Central Secretariat Service on regular basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 11.7.2006.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A. 23011/16/2002-HR. II.—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers Grade of Central Secretariat Service for the year 2003 (Seniority Quota) based on the nomination by the Department of Personnel and Training to the Fertilizer cadre comprising of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals vide DoPT's O. M. No. 5/25/2004-CS. I dated 05.6.2006, the President is pleased to appoint Shri Nand Lal (SL : 92), as Section Officer of Central Secretariat Service on regular basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 11.7.2006.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A. 19011/8/2005-HR.II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in OM No. 5/20/2005-CS.II dated 19.6.2006, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri Nand Lal for a further period from 1.1.2006 to 31.12.2006 or till regular Sr. PPS become available or until further orders whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

No. A. 19011/8/2005-HR.II.—In pursuance of DoPT's instructions contained in OM No. 5/20/2005-CS.II dated 19.6.2006, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri A. K. Bahl for a further period

from 1.1.2006 to 31.12.2006 or till regular Sr. PPS become available or until further orders whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

The 19th July 2006

No. A. 23011/16/2002-HR. II.—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers Grade of Central Secretariat Service for the year 2003 (Seniority Quota) based on the nomination by the Department of Personnel and Training to the Fertilizer cadre comprising of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals vide DoPT's O. M. No. 5/25/2004-CS.I.—dated 05.6.2006, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar (SCSL No. 442/SL-89) as Section Officer of Central Secretariat Service on regular basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the afternoon of 14.7.2006.

2. He is posted in the Department of Chemicals and Petrochemicals.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 31st July 2006

No. A. 32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri R. L. Meena as Joint Advisor in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period of six months w.e.f. 18.07.2006 or until the regular incumbent becomes available through UPSC, whichever is earlier.

P. J. MICHAEL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 26th July 2006

No. A. 12011/12/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/25/2004-CS. I. dated 5.6.2006, the President is pleased to appoint Shri S. C. Kashyap (SC), Section Officer (ad-hoc) of CSS Cadre in the Ministry of Finance as Section Officer of CSS Cadre in the Department of Consumer Affairs against the Select List Year, 2003 (Seniority Quota) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 19th July, 2006 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 4th August 2006

No. A. 12011/14/2006-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 28(1) of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, as amended from time to time, the President is pleased to promote Shri R. Mathurbootham, a regular Deputy Director (Legal Metrology), as Director (Legal Metrology) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on a regular basis with effect from 17th July, 2006 i.e. the date of UPSC's letter conveying the recommendation of the DPC for promotion against the post of Director (Legal Metrology), until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

New Delhi-110011, the 7th August 2006

No. A. 32013/7/2004-NTH.—In continuation of this Department's notification of even number dated 15th September, 2005 the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Bhagat Ram Meena as Director Grade-II in the National Test House (Western Region), Mumbai in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 6.8.2006 (FN) for a further period of six months or till the person duly approved for regular appointment is available, whichever is earlier.

The appointment will not bestow a claim for regular appointment or count for the purpose of seniority in the grade.

HARJINDER SINGH MALHI, Under Secy.

No. A. 32013/2/2005-NTH.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers on promotion, to the grade of Scientist SB (Chemical) in the National Test House in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officers	
1.	Dr. N. K. Bhatia, Scientist SB (Chemical)	17.05.2006 (FN)
2.	Shri S. K. Agarwal, Scientist SB (Chemical)	17.05.2006 (FN)

2. They will be on probation for a period of two years.

HARJINDER SINGH MALHI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 24th July 2006

No. SM/01/006/2005.—The President is pleased to promote the following officer holding the post of Director in the Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in Survey of

India to the post of Additional Surveyor General in the Pay Scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Senior Administrative Grade on regular basis in that Department with effect from the date as indicated against him until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1.	Sh. Chandan Chakraborty	30.05.2006

2. Above officer has been promoted subject to outcome of the Civil Appeal No. 6321-6322/98 pending in the Supreme Court.

A. J. KURIAN, Dir.

New Delhi-110016, the 10th July 2006

No. A. 12023/03/99-Admn. I (A).—Consequent upon his inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against seniority quota vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/25/2004-CS. I dated 5.6.2006, the President is pleased to appoint Shri Yoginder Singh, a regular Assistant who has been officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the cadre of Ministry of Human Resources Development (Department of Secondary & Higher Education), as Section Officer in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSS cadre of Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology) w.e.f. 30.06.2006 (AN) and until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A. 32011/01/2001-Admn. I (A).—Competent Authority in the Department of Science & Technology is pleased to appoint Shri Ashim Kumar Mazumdar, Junior Technical Assistant to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Science & Technology for the period from 26.06.2006 to 25.12.2006 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same or for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Department reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A. 19015/04/05-Admn. I (A).—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2006-CS. I dated 29th June, 2006 the President is pleased to appoint Smt. Suman K. Agrawal, a Grade-I Officer (Under Secretary) of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary)

of CSS purely on an ad-hoc basis in the Department of Science & Technology with immediate effect and until further orders.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 12th July 2006

No. A. 19014/05/2004-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar as Scientist 'C' on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Science & Technology w.e.f. 10.07.2006 (AN) or until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 18th July 2006

No. A. 12023/01/06-Admn. I (A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 30.01.2006, and in pursuance of DOP&T's O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31.05.2006, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of the following permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretaries in the Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Science & Technology upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier :—

1. Smt. Madhu Surya
2. Shri Rajesh Chandwani, DBT
3. Shri K. Jayaraman

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 24th July 2006

No. A. 19014/05/2004-Admn. I (A).—In continuation of this Department's Notification of even No. dated 12.07.2006, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar as Scientist 'C' on temporary basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Science & Technology w.e.f. 10.07.2006 (AN) or until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 26th July 2006

No. A. 19013/02/2005-Admn. I (A).—The President is pleased to extend the term of deputation of Dr. V. C. Goyal,

Scientist 'E-I', National Institute of Hydrology, Roorkee as Scientist 'F' in the Department of Science & Technology in the Scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- for a further period of one year beyond 25.07.2006 or until regular candidate joins on repatriation from deputation or until further orders whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A. 32011/01/2005-Admn. I (A).—Consequent upon inclusion of their name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Seniority Quota and on nomination to Ministry of Science & Technology, vide DP&T's O.M. No. 5/25/2004-CS. I dated July 10, 2006, the President is pleased to appoint S/Shri Umesh Pande and Arun Kansal as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology with effect from the forenoon of 21st July, 2006.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 31st July 2006

No. A. 15012/2/2006-Admn. I (Pt.).—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Sisodia, Assistant Commissioner (Ref.) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31.07.2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

No. A. 15012/3/2006-Admn. I (Pt.).—On attaining the age of superannuation, Shri P.M.A. Hakeem, Secretary (AHD & Fy.) retires from Government service with effect from the afternoon of 31.07.2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

No. A. 15012/4/2006-Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri P. L. Chopra, Under Secretary in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31.07.2006

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 19th July 2006

No. 32013/3/2005-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. 5/7/2006-CS-II dated 7.6.2006, the President is pleased to appoint Sh. S. Balasubramaniam, PS belonging to CSSS cadre of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Food & Public Distribution as Principal Private Secretary in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on ad-hoc basis w.e.f. 6.7.2006 (forenoon) to 31.12.2006.

S. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st July 2006

No. 4-7/2004-Admn.—Smt. Reva Nayyar, IAS (HY : 68) relinquished the charge of Secretary, Ministry of Women and Child Development with effect from the afternoon of 31st July, 2006.

S. K. DARGAN, Under Secy.

The 1st August 2006

No. 4-31/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Deepa Jain Singh, IAS (HY : 71) as Secretary, Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 1st August, 2006.

S. K. DARGAN, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 17th July 2006

No. A. 12011/1/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Deepika Kachhal, Indian Information Service (1994) as Deputy Secretary in the Ministry of Youth Affairs & Sports in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 11th July, 2006 (AN).

The appointment of Ms. Deepika Kachhal as Deputy Secretary would be for a period of four years with effect from 11th July, 2006 or until further orders, whichever is earlier.

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st July 2006

No. 19011/7/2006-Estt.—The President is pleased to relieve Sh. Aditya Prakash (ISS), Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 31.7.2006

to take up his new assignment in the Ministry of Rural Development.

2. This issues in pursuance of Ministry of Statistics Programme Implementation Office Order No. 12016/8/SAC/06-07/2005-ISS dated 26.7.2006.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st July 2006

No. 3(1)/2006-P.I.—On the basis of the result of Limited Departmental Competitive Examination, 2006 for promotion to the post of Section Officer, Secretary, Department of Information Technology hereby appoint Smt. Revathi Suresh Kumar, Assistant as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 31.7.2006.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the August 2006

No. A. 39013/1/2006-P & E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri Sunil R. Desai, Emp. Code-1283, from the post of Scientist "C", NIC-Gujarat State Unit, Gandhinagar with effect from the afternoon of 21st January 1999 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I).

New Delhi-110003, the 2nd August 2006

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri D. Venkata Ramana, Emp. Code-3317, from the post of Scientist "B", NIC-Tripura State Unit, Agartala with effect from the afternoon of 4th December 1993 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I).

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri Praveen Sahni, Emp. Code-1289, from the post of Scientist "B", NIC-Gujarat State Unit, Gandhinagar with effect from the afternoon of 1st May 1992 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri P. Sitaramaiah, Emp. Code-0496, from the post of Scientist "B", NIC-Pune with effect from the afternoon of 30th April 1997 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Mukesh S. Purohit, Emp. Code-2952, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Gujarat State Unit, Gandhinagar with effect from the afternoon of 4th August 1997 and he stands relieved of his duties from the same day. Shri Mukesh S. Purohit was unauthorizedly absent from his duties from 18.07.1997 to 04.08.1997 hence this period is treated as not spent on duty.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Smt. S. V. Karthiyayini, Emp. Code-4560, from the post of Scientist "B", NIC-Karnataka State Unit, Bangalore with effect from the afternoon of 7th December 2000 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri S. Manoharan, Emp. Code-3819, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Gujarat State Unit, Gandhinagar with effect from the afternoon of 9th June 1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

The 3rd August 2006

No. A. 39013/1/2006-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri Deepak Bhatnagar, Emp. Code-1428, from the post of Scientist "B", NIC-Haryana State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 7th August 1989 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 21st July 2006

No. A. 32022/1/99-Admn.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Kishan Lal a regular

Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of Civil Aviation as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- in the Ministry of Civil Aviation for the period upto 31.12.2006 or till the posts is filled up on regular basis, whichever is earlier in pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/7/2006-CS. II dated 30.6.2006.

2. The above appointment is purely on ad-hoc in nature and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Principal Private Secretary, grade of CSSS.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 28th July 2006

No. A. 12022/5/2004-Admn.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 26th July, 2006, the scale of pay of Shri Prashanta K. Mishra, Special Secretary may be read as Rs. 26,000/- (fixed).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th July 2006

No. ERB-I/2006/2/48—Shri A. K. Nigam, SAG/IRPS, Southern Railway, is appointed as Adviser (IR), Railway Board, in Grade Rs. 22,400—24,500/- with effect from the forenoon of 30.06.2006.

M. K. AGARWAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2006/2/56—Shri Rakesh Chopra, HAG/RSE, Northern Railway, is appointed as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board, in Grade Rs. 24,050—26,000/- with effect from the afternoon of 30.06.2006.

M. K. AGARWAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 18th July 2006

No. A. 22012/1/2005-E. II (B)—In continuation of this Deptt's Notification of even No. dated 16.12.05 and 6.3.06 the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri V. P. Sharma and Shri R. L. Ahuja, PPS as Sr. Principal Private Secretary for the period upto 31.12.2006 or till regular candidates become available, whichever is earlier :

B. N. MISHRA, Under Secy.

The 31st July 2006

No. A. 12025/35/2006-E-II. (B)—Shri Santosh Nautiyal, IAS (OR : 68), Chairman, National Highways Authority of India on attaining the age of superannuation, has retired from Government service w.e.f. 31.07.2006.

B. N. MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 1st August 2006

No. RW/AP/EE (688)/E-II—The President is pleased to accept resignation of Shri Bovin Kumar, Executive Engineer (Civil) (NFSG) of Central Engineering Service (roads) Group 'A' (AEE 94/223) in the Department of Road Transport & Highways with effect from 1st August 2006 (Afternoon).

A. P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 27th July 2006

No. 35/2006. F. No. 4/6/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri N. S. Bisht, a regular Assistant of the Ministry of Defence Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the forenoon of the 27th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 3rd August 2006

No. 42/2006. F. No. A.-35018/1/2005-Admn. I.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of

Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri Rohtash Dahiya, an officer of the Central Power Engineering Group (A) Service, to the post of Member (thermal) in the Central Electricity Authority in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from 01.08.2006 (FN), or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 43/2006. F. No. A.-35018/3/2001-Admn. I.—Shri R. K. Jain, an officer of the Central Power Engineering (Group-A) Service, and functioning as Member (Thermal), Central Electricity authority, on deputation basis, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st July, 2006 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 7th August 2006

No. 18/2006. F. No. 25/3 (9)/2005-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2004 the President is pleased to appoint Shri Vishal Dashrath Jorande to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 10.07.2006 (FN).

2. Shri Vishal Dashrath Jorande will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.